



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

20 कार्तिक 1933 (श0)  
(सं0 पटना 611) पटना, शुक्रवार, 11 नवम्बर 2011

---

गन्ना उद्योग विभाग

अधिसूचनाएं

9 नवम्बर 2011

एस0 ओ0 393, दिनांक 11 नवम्बर 2011—बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम 1981 की धारा-48 की उप-धारा (i) (संशोधित 1993) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार गन्ना उद्योग विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या एस. ओ. संख्या 12, दिनांक 17 मार्च 2004 में आंशिक संशोधन करते हुए पेरार्ई सत्र-2011-12 से अगले दो पेरार्ई वर्षों तक (पेरार्ई सत्र 2011-12 से 2013-14 तक मात्र) के लिए कारखाने के प्रत्येक दखलकार द्वारा या उनके निमित्त की गई ईख की खरीद पर भुगतेय क्षेत्रीय विकास परिषद कमीशन के दर को आपूर्तिकर्ता (ईखोत्पादक कृषक) को वास्तविक रूप से प्रति क्वींटल भुगतान की गई ईख की कीमत का 1.80 प्रतिशत की दर से घटाकर संबंधित वर्ष के ईख मूल्य का 1 प्रतिशत की दर से निर्धारित करती है और विहित रीति से इसके भुगतान का आदेश देती है।

यह अधिसूचना तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(सं० सा०11-05/2008—2310)  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
(ह०) अस्पष्ट,  
सरकार के उप-सचिव।

9 नवम्बर 2011

एस0 ओ0 394, एस0 ओ0 393 दिनांक 11 नवम्बर 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० सा०11-05/2008—2310)  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
(ह०) अस्पष्ट,  
सरकार के उप-सचिव।

*The 9th November 2011*

S.O. 393, dated 11th November 2011—In exercise of power conferred by sub-section (i) of section 48 of the Bihar Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act 1981, (amended 1993) the State Government has decided to partially amend the notification S.O. No.12, dated 17th March 2004, issued by the Department of Sugarcane Industry and reduce the amount of commission payable to Zonal Development Councils for the season 2011-12 to next two crushing seasons (season 2011-12 to 2013-14 only) from 1.80 percent of Cane Price paid to the Suppliers (cane growers) by the occupier of the Sugar factory or any person acting on his behalf and fix it to 1.00 percent of the Cane Price Per Quintal, and instruct the occupiers of Sugar factories to accordingly pay it in the prescribed manner.

This notification shall come into force at once.

(सं० सा०11-05 / 2008—2310)

By order of the Governor of Bihar,

Sd/-Illegible,

*Deputy Secretary to Government.*

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 611-571+500-डी0टी0पी0।

**Website: <http://egazette.bih.nic.in>**